

## प्रेस नोट दिनांक-01-06-2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम थाना मऊ पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्ता प्रीती देवी पत्नी बहुरी निवासी ग्राम बमोरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

15 लीटर कच्ची शराब

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं टीम
2. उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव एवं टीम

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री भास्कर मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी सुरजी का पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ
2. आरक्षी शक्ति सिंह

(3). आज दिनांक 01.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). आज दिनांक 01.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा पति पत्नी के आपसी विवाद को समाप्त कराकर परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती कंचन पत्नी श्री हिमांशु नन्द कोरी निवासी नई दुनिया कसहाई कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री हिमान्शु द्वारा उनके साथ मारपीट व गाली गलौज किया जाता है। महिला थाना में नियुक्त उ0नि0 श्रीमती राजकुमारी व महिला आरक्षी रीता यादव द्वारा श्रीमती कंचन की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, पति श्री हिमान्शु से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति पत्नी द्वारा भविष्य में लड़ाई झगड़ न करने की बात कही गयी।

महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को आपस में सामंजस्य बनाकर साथ रहकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन हेतु बताया गया ।

(5). आज दिनांक 01.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, बस स्टैण्ड इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया।

(6). आज दिनांक 01.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाहनों की चेकिंग हेतु चलाए गए विशेष अभियान के क्रम में यातायात पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रवन्ने की अवधि समाप्त होने पर 05 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया ।

इस दौरान खनिज अधिकारी श्री सनी कौशल, पीटीओ श्री संतोष कुमार तिवारी, प्रभारी यातायात श्री योगेश कुमार यादव मौजूद रहे।